PC

342

TIL

161

əl

186

49

<u>-</u>∨

(8

ρİ٦

ole alo

be

(si

176

AR

eur

an

96 715

MA

euie

U

ua

A

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED CIN L45101DL1967PLC004759

Regd. Off: 115, Ansal Bhawan, 16, K G Marg, New Delhi - 110001 Mob.: +91-9871053419, Tel: 011-23353550, 66302268-72, Website: www.ansalapi.com, E-mail id: shareholderservice@ansalapi.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Members (Shareholders) of Ansal Properties & Infrastructure Ltd. will be held on Monday, the 28th September, 2020 at 11.30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means

In accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated the 12th May, 2020 and circular Nos. 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated the 05th May, 2020. 13th April, 2020 and 08th April, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC OAVM and the Notice convening the 53rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent only by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depository Participant/ Depository.

The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will be available on the website of the Company www.ansalapi.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. These documents will also be available on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIIPL') i.e. https://instavote.linkintime.co.in.

The Board of Directors of the Company have not recommended any dividend for the financial

year 2019-20. Manner of getting e-mail registered- to receive notice of AGM and Annual Report 2019-20

- Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/resolution is required) at shareholderservice@ansalapi.com or to Link Intime India Private Ltd. (LIIPL) at shamwant.kushwah@linkintime.co.in or shareholders can update e-mail address thorough the link viz. https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update
- their e-mail address with the relevant Depository Participant or can register his/her

Casting vote by members through remote e-voting/ e-voting system during the AGM Members of the Company who are holding shares in physical mode and who have not registered their e-mail addresses with the Company as well as members who have not updated their e-mail address with the Depository Participant may obtain the login id and password for casting their vote (by logging on to LIIPL's e-voting System https:// instavote linkintime.co.in) through remote e-voting/ e-voting system during the AGM by following the instructions mentioned in the notes to the Notice of the 53 rd AGM

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Abdul Sami

emai

General Manager (Corporate Affairs) and Company Secretary Place: New Delhi Membership No. FCS 7135 Date: 28th August, 2020

EMA INDIA LIMITED

C-37, Panki Industrial Area, P.O. Udyog Nagar, Kanpur - 208022 Ph: 0512-2691210-11; Fax: 0512-2691214 E-mail: emaindia.cs@gmail.com; Website: www.eiltd.info CIN No.: L27201UP1971PLC003408

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 49° Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of EMA India Limited will be held on Friday, 25th September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Meens ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and read with General Circular issued by MCA and the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and read with General Circular issued by MCA and the Provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and read with General Circular issued by MCA and the Provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and read with General Circular issued by MCA and the Inpursuance of MCA Circulars and SEBI Circular, notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 have been mailed electronically on Friday, 28° August, 2020, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or the depositoriot to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or the depositoriot to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or the depositoriot to Limited (CDSL) at www.exciingandia.com.

In a provision of the Companies of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.besindia.com respectively. A copy of the axence is also available on the website of Central Depository Securities (India) Limited (CDSL) at www.exciingandia.com.

As per Regulation 44 of the SEBI (EODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and applicable provision of SS-2 on general meeting, the Company is providing remote e-voting facility to a stend the AGM (e-voting). The Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (e-voting). The Company is provided with a theility to attend the AGM appear of the AGM (e-voting). The Company is engaged the services of CDSL as the Authorized Agency to pr

FINANCIAL EXPRESS

THWAITE & CO. LIMITED

of India Undertaking) e Road, Kolkata - 700 043

PUR/CAPEX/Weigh Bridge /AW/ 2020

Vare invited in Two bid system for on & Commissioning of 1 no. 60 T Re Weigh Bridge and revamping of Beiton Weigh Bridge in Angus Works Punder conditions.

& submission of tender is 21 days, publication (both days inclusive). nay collect the tender document from raithwaite & Co. Ltd., 5 Hide Road. rking days from 10.00 hrs to 14.30 Mement of Rs.250/- (non refundable) by ("AGrder in favour of "Braithwaite & Co. Sept Kolkata, towards cost of tender Othewho are registered with NSIC / MSME the dered job are exempted from Compst of tender document. Tender 2020 o be downloaded from our website Circuidia.com and offer can be submitted Affairtions.

("Seendum etc. will be notified in our Electraithwaiteindia.com only. Dy. Manager (Purchase)

Mem देकि ऑफ इंडिया regial Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 held, MOOLCHAND SHOPPING COMPLEX. **ENCE COLONY, NEW DELHI-110024**

Tran OTICE (For Immovable Property) ix -IV [See Rule – 8(1)]

032 ed being the Authorized Officer of the The IA, Defence Colony, New Delhi Branch, add Ind Reconstruction of Financial Assets and regilterest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of owers conferred under Section 13(12) read 2011 Interest (Enforcement) Rules 2002, issued elec 05.06.2020, calling upon the Borrowers: The RA S/O. SH. RAMESH CHAND MISHRA. the SH. RAMESH CHAND MISHRA AND JOHNEY SAHNI S/O. VED PRAKASH rept amount mentioned in notice being the wenty Nine Lakhs Thirty Nine Thousand Store Only) within 60 days from the date of The he borrowers, guarantors having failed to hereby given to the borrowers, guarantors hat the undersigned has taken possession out arein below in exercise of powers conferred The4) of the said act read with rule 8 of the votenent) rules, 2002 on this day 26.08.2020. AGNar and the public in general is hereby which the property and any dealing with the the charge of Central Bank of India, Delhi Branch, for an amount of Prowenty Nine Lakhs Thirty Nine Thousand One Only) as on 05.06.2020 and

Placis invited to provisions of Sub-section Date Act, in respect of time available, to

PF IMMOVABLE PROPERTY

perty i.e. Ground Floor without Roof side portion of free hold built up property new No.S-3/85, area measuring 65 25, situated in the area of Village Nangli n as New Mahavir Nagar now known as hi standing in the name of Smt. Santosh Nº Mishra.

inded as under:-

perty On the South by : Other's Property

अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सीआईएन : L45101DL1967PLC004759

पंजीकृत कार्यालय : 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 मोबाइल : +91-9871053419, दूरभाष : 91-11-23353550, 66302268-72

वेबसाइट : www.ansalapi.com ई-मेल : shareholderservice@ansalapi.com

एतद्वारा सचना दी जाती है कि अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यों (शेयरधारकों) की 53वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 11.30 बजे प्रातः आयोजित की जायेगी।

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा कॉर्पीरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 20/2020, 17/2020 तथा 14/2020 क्रमशः दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 8 अप्रैल, 2020 (सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपन्न'' सन्दर्शित), कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों, यथा संशोधित सेमी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के अनुसार कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी और वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट सहित 53वीं एजीएम आयोजित करने की सूचना उन सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ansalapi.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। ये दस्तावेज लिंक इनटाइम इंडिया प्रहा.लि. ('एलआईआईपीएल') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। कम्पनी के निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2019-20 हेतु कीई लाभांश नहीं स्वीकृत किया है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 प्राप्त करने हेतु ई-मेल पंजीकृत कराने की रीति i. भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक तथा जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे इसे कम्मनी के पास फोलियो नम्बर का विवरण तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति देकर (गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, प्राधिकार पत्र/संकल्प अपेक्षित है) shareholderservice@ansalapi.com पर लिखित में अथवा लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के पास shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर निवेदन कर सकते हैं या शेयरधारक लिंक https://linkintime.co.in/emailreg /email_register.html के माध्यम से अपना ई-मेल पता अपडेट करा सकते हैं।

ii. डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करायें अथवा वे अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों द्वारा मतदान करना कम्पनी के सदस्य जो भौतिक माध्यम में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है तथा साथ ही वे सदस्य जिन्होंने डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता अद्यतनीकृत नहीं कराया है वे 53वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित नोट में निर्देशों का अनुपालन करके एजीएम के दौरान रिमोट ई-बोटिंग/ई-बोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड (एलआईआईपीएल की ईवोटिंग प्रणाली https:// instavote.linkintime.co.in पर लॉगिन करके) मतदान कर सकते हैं।

कते अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

अब्दुल सामी

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 28 अगस्त. 2020 महाप्रबन्धक (कॉर्पोरेट मामले) तथा कम्पनी सचिव सदस्यता सं. : FCS 7135

ACE

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: L74899HR1995PLC053860 पंजी. कार्यालय : दुर्धाला लिंक रोड, दुर्धाला, जिला पलवल—121102, हरियाणा फोन : +91—1275—280111 (50 लाइन्स), फैक्स : +91—1275—280133 ई-मेलः cs@ace-cranes.com, वेबसाइट : www.ace-cranes.com

> 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), रिमोट ई-वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है किः

(अ) एजीएम आयोजित करने की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन हाँ है'', ''जैसा इक्विपमेंट लिमिटेड (''कम्पनी'ं) के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से बुहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को 11.30 बजे पूर्वो. भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी। एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं रिमोर ई-वोटिंग का विवरण उन सभी सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जायेगा जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सूचनाओं तथा वार्षिक रिपोर्ट को ई-मेल करने की पूर्णता की तिथि 26 अगस्त, 2020 है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट नाजी, दिल्लीwww.ace-cranes.com, तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है। सदस्य https://www.evotingindia.com शेयरहोल्डर/मेम्बर्स लॉगिन के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे।

(ब) रिमोट ई-वोटिंग सूचना : कट-ऑफ तिथि अर्थात बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 तक भौतिक या इसाईट अर्थात अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली से उनके पोर्टल www.evotingindia.com वे माध्यम से 26वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदा कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. 25वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर रिमोट ई-वीटिंग के माध्यम से मतदान किया जायेगा।

2. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान रविवार, 20 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः से प्रारम्ध होगा और बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगा।

110017 ली-110017

ारी की सूचना म'') गुरुवार, 24 10017 में कम्पनी ायों को निष्पादित

त्र तथा उपस्थिति गाउँडी कम्पनी के स्वीकृत प्रक्रिया ww.genesis की वेबसाईट

य बोर्ड (सचीयन 2 के साथ पितत कम्पनी की शेयन तक एजीएम के

द्रीआर विनियमन । प्रदत्त ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध

में शुरू होगी तथा ाध्यमों से अधन 00 है। यदि कोई शेयर धारित करते कर सकते हैं। न की सुविधा भी के बावजूद भी

के आदेश से मिटेड के लिये राजेन्द्र दायम कस्पनी भरिक

रोड.

5/76/77. com.

om

न अधिनियम ति सचना पा जाता है कि पति जिसका द या है, की, 1) , भू तल, नई वासजी सड़क,

17/10, 1ला ओम प्रकाश रय बैंक लि. नवे हजार तीन

9,00,000.00

15 दिनों की

अहातन ब्याउ क्री की जायेगी RattanIndia

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय: ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037

फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: ir@rattanindia.com

सचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य व्यवसायों के साथ-साथ जून 30, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए, **रतनइंडिया पावर लिमिटेड** (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, सितंम्बर 4, 2020 को आयोजित की जाएगी ।

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है ।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: अगस्त 28, 2020 ललित नारायण मठपती कंपनी सचिव

वाम होल्डिंग्स लिमिटेड

(CIN: U51909UP1996PLC057371) पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 1ए, सेक्टर-16 ए, नोएडा-201301 (च.प्र.) ई-मेलः corporate.enpro@jepl.com; सम्पर्कः 0120-4361000 वाम होल्डिंग्स लिमिटेड की 23वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

वान हो। त्वन्स । तिनिट्ड का 23वा वानिक आम बैठक के सब्ध में सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 ("एमसीए परिपत्र") के अनुसरण में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए वाम होल्डिंग्स लिमिटेड के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंत्रालय दिखे सित्यन्स, 2020 को प्रावः 10.30 बर्ज (आईएसटी) में विडियो कॉन्फॉसिंग (बीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माह्यम में (अपरीप्तर्ग) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएगिएम के माध्यम से एजीएम में चरित्रत होने वाले सदस्यगणों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

किर्पन क प्रयाजन हतु का जाएगा।
एमसीए परिपनों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए वित्तीय
विवरण के साथ उसके साथ संकंग निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य
अपेक्षित दस्तावेज (संयुक्त रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) उन सदस्यों को
इलेक्ट्रॉनिक पद्धित से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों (डीपी)
के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में
शामिल एवं साग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने एवं माग लेने के लिए निर्देश एजीएम की

शूवना म दिय गय ह।
सदस्यगण जिन्होंने भीतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण किये हैं और जिनका ई—मेल पता
कंपनी/अपने संबंधित ढिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे
एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता, फोलियो
नाम्बर, कंपनी के धारित शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व—सत्यापित स्केन की गई प्रति
और कंपनी के साथ पंजीकृत अनुसार सदस्यों के पते के प्रमाण के कप में निम्निलिखत किसी एक
दस्तावेज क्या आधार कार्ड. झाइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या कोई
अन्य सरकारी दस्तावेज की स्व—सत्यापित प्रति के साथ सतस्य द्वारा विधिवत् इस्ताव्यति पत्र को
करके वर्ष्ट वर्ष्ट याशावीक इंटें के साथ सतस्य द्वारा विधिवत् इस्ताव्यति पत्र को अन्य सरकारा वस्तावण का स्व−सारवाभय भाव क राज्य घरना आत्र विष्णा कर वैकार स्वीति स्वीति स्वीति स्वीति स्वीति स् स्कृत करके अथाशीछ ई-मेल corporate.enpro@epl.com या rta@alankti.com पर गैजकर यापना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। हिनेट प्राक्ता में शैयर घारण करने वाले सदस्यमण अपने क्रिपोजिटरी प्रतिमागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

कंपनी एजीएम को सूनना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना बोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिभोट ई-चोटिंग की सुनिधा उपलब्ध करा रही हैं। इसके साथ डी, कंपनी एजीएम के दौरान ई-चोटिंग सिस्टम के गाध्यम से बोट देने की भी सुनिधा उपलब्ध करा रही हैं। रिभोट ई-चोटिंग/ई-चोटिंग के माध्यम से बोट देने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूबना में दी गई है, जो सीडीएसएल www.evotingindla.com पर उपलब्ध हैं।

इ—वाटिग/इ—वाटिग क माध्यम से बाट देग का प्रस्तुत आध्या रुजारा का तूना के लिया को सीविएसर्ल www.evofingindia.com पर उपलब्ध हैं।
सदस्यों का वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 18 सितान्य, 2020 ('कट—ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रतत्त इविवटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इविवटी शेयरों के आनुपातिक होगा। ई—वोटिंग अविध शनिवार, 26 सितान्यर, 2020 (प्रातः 9.00 वर्ज) प्रारंग होगी और सोमवार, 28 सितान्यर, 2020 (प्रायं 5.00 वर्ज) समारत होगी। इस अविध के दौरान सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक गाध्यम से दे सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग मॉब्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्यण जो रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे ने के हकदार नहीं होंगे। ऐसा व्यवित जो कंपनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सूचना मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह helpdeskevoting@cdsinda.com पर अनुरोध में सेकल अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ख प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यवित रिमोट ई—वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए वर्तमान कर सकता है। हलेव्हॉनिक पदिति के सीचिएस शिवरिक के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए वर्तमान पूजर आईडी एवं पासवर्ख का प्रयोग कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पदिति के मुख्य बोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए कुपया www.evotingindia.com के हेल्य सैवरान पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रशं प्रमुख के किसी भी शिकायत के लिए कुपया और ई—वोटिंग सेनुअल आ अवलोकन करें या टोल की नं, 1800-225-533 पर कॉल करें या helpdesk.evoting@cdsl.com पर अनुरोध में ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग सेनुवें किसी भी शिकायत के लिए कुपया श्री नितिन कुंडे, ए' विंग, 25वां तल, मैराधन यूसूरैकर, मफलताल मिल कम्पांचइस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई—400013, ई—मेल: helpdesk.evoting@cdsl.com फोन: 022-23058738 से सम्यर्क करें। helpdesk.evoting@cdsl.com फोन: 022-23058738 से सम्पर्क करें।

वाम होल्डिंग्स लिमिटेड